



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 फाल्गुन 1946 (श०)

(सं० पटना 149) पटना, वृहस्पतिवार, 20 फरवरी 2025

सं० 4/मं०सं०का०का०(गठन)01/2011(पार्ट-I)-382  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प

18 नवम्बर 2016

अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने, कमजोर वर्गों के परिवारों को सहायता दिलाने तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन की व्यवस्था है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यों को और प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत सभी विभागीय संकल्प/अधिसूचना द्वारा की गयी व्यवस्था को निरस्त करते हुए राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत निम्नरूपेण राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन तथा तत्संबंधी अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है।

2. राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है। समिति के सभी मनोनीत/नामित सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले आदेश तक मान्य होगा। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	मुख्य मंत्री, बिहार	अध्यक्ष
2.	उप मुख्य मंत्री, बिहार	कार्यकारी अध्यक्ष
3.	मुख्य मंत्री द्वारा मनोनीत	तीन उपाध्यक्ष
4.	सभी मंत्री/राज्य मंत्री	सदस्य
5.	मुख्य मंत्री द्वारा नामित 30 सदस्य	सदस्य
6.	भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक	सदस्य
7.	लीड बैंकों के राज्यस्तरीय प्रमुख पदाधिकारी	सदस्य

3. इसके अलावा मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/मुख्य प्रबंध निदेशक, पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड एवं सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिवगण तथा पुलिस महानिदेशक समिति के स्थायी पदेन सदस्य होंगे।

3.1. प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग इस समिति के पदेन सचिव होंगे।

4. अध्यक्ष की स्वीकृति से समिति की बैठक बुलाई जायेगी।

5. **राज्य स्तरीय समिति के कृत्य एवं दायित्व :**

- 5.1 राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की मदवार समीक्षा (अनुलग्नक 'क' पर सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की सांकेतिक सूची संलग्न है)।
- 5.2 बीस-सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा (अनुलग्नक 'ख')।
- 5.3 राज्य सरकार के सात निश्चय एवं सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- 5.4 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- 5.5 योजना एवं विकास, श्रम-संसाधन, सूचना प्रावैधिकी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत जनहित की योजनाएँ।
- 5.6 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत जनहित की सभी योजनाएँ।
- 5.7 समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित सभी जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.8 सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, पर्यावरण एवं वन, लघु जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.9 उद्योग, पर्यटन, गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.10 पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.11 मनरेगा, इन्दिरा आवास एवं आजीविका मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- 5.12 कृषि रोड मैप के अंतर्गत योजनाओं (बैंकों के सहयोग पर आधारित योजनाओं सहित) के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- 5.13 बिहार भू-जल सिंचाई योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- 5.14 ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के तथा अन्य ग्रामीण पथ एवं पुल-पुलिया से संबंधित योजनाओं की समीक्षा।
- 5.15 शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल योजनाओं की समीक्षा।
- 5.16 वन विस्तार के अलावा हॉर्टिकल्चर मिशन को बड़े पैमाने पर लागू करने की दिशा में पहल।
- 5.17 बेरोजगारी से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार।
- 5.18 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों एवं भूमिहीनों को कृषि/ग्रामीण विकास/राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के अलावा इन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की समीक्षा।
- 5.19 बैंकों द्वारा विभिन्न श्रोतों से वित्त पोषित बड़ी-बड़ी योजनाओं की समीक्षा, जिसमें नाबार्ड की आर०आई०डी०एफ० योजना भी सम्मिलित होगी।
- 5.20 अध्यक्ष महोदय के निदेश पर अन्यान्य बिन्दु।

6. तीनों उपाध्यक्ष निःशुल्क एवं सुसज्जित आवास के हकदार होंगे। आवास तथा आवास के रख-रखाव की जिम्मावारी भवन निर्माण विभाग की होगी। उपाध्यक्षों को किस स्तर की सुविधा देय होगी, इसे मुख्य मंत्री द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

7. बैठक में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों, सांसदों, विधान मंडल के सदस्यों को छोड़कर शेष के लिए दैनिक भत्ता के रूप में ₹300/- (तीन सौ रुपये) तथा यात्रा-भत्ता ₹1500/- (एक हजार पाँच सौ रुपये) प्रति बैठक देय होगा। दैनिक भत्ता/यात्रा-भत्ता उन्हें समिति की बैठक में भाग लेने पर ही अनुमान्य होगा।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित कराया जाय।

अनु०-यथोक्त

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ब्रजेश मेहरोत्रा,  
सरकार के प्रधान सचिव।

कार्यक्रम कार्यान्वयन की दृष्टि से समीक्षा की जानेवाली योजनाओं की सांकेतिक सूची

<b>शिक्षा विभाग</b>	
1	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण
2	निःशुल्क पोशाक
3	मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना
4	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना
5	मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना
6	मध्याह्न भोजन योजना (एम०डी०एम०)
7	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना
8	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना
9	बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना- निश्चय
<b>पर्यावरण एवं वन विभाग</b>	
10	कृषि वानिकी एवं वानिकी से संबंधित अन्य सभी योजनाएँ
11	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)
<b>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</b>	
12	गोदाम निर्माण
13	जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न/किरासन तेल की आपूर्ति
<b>श्रम संसाधन विभाग</b>	
14	नये आई०टी०आई० की स्थापना
15	महिलाओं के लिए नये आई०टी०आई० की स्थापना
16	बिहार कौशल विकास मिशन
<b>अल्पसंख्यक कल्याण विभाग</b>	
17	अल्पसंख्यक छात्रावास योजना
18	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
19	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना
20	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
<b>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</b>	
21	ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना - निश्चय पाइप जल योजना
22	लघु पाईप जल आपूर्ति योजना - निश्चय पाइप जल योजना
23	बी०पी०एल० परिवार के लिए शौचालय का निर्माण - निश्चय योजना
24	ए०पी०एल० परिवार के लिए शौचालय का निर्माण - निश्चय योजना
<b>पंचायती राज विभाग</b>	
25	14वें केन्द्रीय वित्त आयोग से संबंधित योजनाएं
26	चतुर्थ एवं पंचम राज्य वित्त आयोग से संबंधित योजनाएं
<b>ग्रामीण कार्य विभाग</b>	
27	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (एम०एम०जी०एस०वाई०) - निश्चय योजना
28	नाबार्ड/आर०आई०डी०एफ० द्वारा वित्त संपोषित राज्य योजनाएँ (सड़क एवं पुल-पुलियों का निर्माण)
29	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना
30	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०)
<b>अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग</b>	
31	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति आवासीय विद्यालय योजना
32	बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा संचालित योजनाएं
33	थरुहट क्षेत्र विकास योजना
34	बालक छात्रावास का निर्माण
35	बालिका छात्रावास का निर्माण
<b>समाज कल्याण विभाग</b>	
36	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
37	राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
38	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
39	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना

40	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
41	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
42	निःशक्तजनो के लिए राष्ट्रीय योजना
43	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
44	बिहार निःशक्तता पेंशन योजना
45	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
46	कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना
47	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना
48	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना
49	मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना
50	समेकित बाल विकास योजना(ICDS)
<b>नगर विकास एवं आवास विभाग</b>	
51	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
52	अटल मिशन फॉर अर्बन रिज्यूविनेशन एण्ड ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT)
53	सबके लिए आवास
54	नगर क्षेत्र में पेयजल, शौचालय एवं गली-नाली योजनाओं से संबंधित- निश्चय
<b>पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग</b>	
55	लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण
56	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना
57	जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास
<b>सहकारिता विभाग</b>	
58	कृषि रोड मैप अन्तर्गत संचालित योजनाएं
59	फसल बीमा योजना
60	पेक्स/व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण एवं चावल मिल-सह-गैसीफायर की स्थापना
<b>ग्रामीण विकास विभाग</b>	
61	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा)
62	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)
63	बिहार आजीविका योजना
64	इंदिरा आवास योजना
<b>कृषि विभाग</b>	
65	कृषि रोड मैप से संबंधित योजनाएँ
66	डीजल अनुदान
67	कृषि यांत्रिकीकरण
68	राष्ट्रीय एवं राज्य बागवानी मिशन
<b>लघु जल संसाधन विभाग</b>	
69	बिहार शताब्दी निजी नलकूल योजना
70	नाबार्ड ट्यूबवेल योजना, आर०आई०डी०एफ० के अधीन
<b>योजना एवं विकास विभाग</b>	
71	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)
72	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना
73	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
74	स्वयं सहायता भत्ता-निश्चय
<b>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</b>	
75	सक्षम कोटि के गृह विहीन परिवारों को वास भूमि की बन्दोबस्ती
76	गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती
77	भूदान बंदोबस्ती
<b>स्वास्थ्य विभाग</b>	
78	जननी बाल सुरक्षा योजना
79	नियमित टीकाकरण
80	स्वास्थ्य केन्द्रों में दी जाने वाली सुविधाएं
81	दवा/चिकित्सक/अन्य कर्मियों की उपलब्धता

82	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 24X7 संचालन
83	कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम
84	नये ANM/GNM/Nursing College एवं Paramedical School की स्थापना
<b>कला, संस्कृति एवं युवा विभाग</b>	
85	मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत स्टेडियम का निर्माण
86	पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं सौंदर्यीकरण
<b>आपदा प्रबंधन विभाग</b>	
87	आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता
<b>ऊर्जा विभाग</b>	
88	ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
89	मुख्यमंत्री विद्युत निश्चय योजना
90	दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना
<b>गृह विभाग</b>	
91	कब्रिस्तान घेराबंदी
92	मंदिर घेराबंदी योजना
<b>पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग</b>	
93	समेकित मुर्गी विकास योजना
94	समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना
95	दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना
96	दुग्ध समितियों का गठन
<b>विज्ञान प्रावैधिकी विभाग</b>	
97	सरकारी नये संस्थानों को खोले जाने एवं उसकी स्वीकृति
<b>जल संसाधन विभाग</b>	
98	सिंचाई क्षमता का विकास
99	नहर पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण/लाइनिंग कार्य
<b>गन्ना उद्योग विभाग</b>	
100	मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम

ब्रजेश मेहरोत्रा,  
सरकार के प्रधान सचिव।

## अन्य (20-सूत्री कार्यक्रम)

01A	मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन	
	01A01	निर्गत जॉब कार्ड की संख्या
	01A02	सृजित मानवदिवस की संख्या
	01A03	दी गई मजदूरी (लाख रु० में)
01F	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	
	01F01	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रोन्नत (नया एवं पुररुज्जीवित) स्वयं सहायता समूहों की संख्या
	01F02	वित्तीय वर्ष के दौरान परिक्रामी निधि प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की संख्या
	01F03	वित्तीय वर्ष के दौरान संचयी निधि से निवेशित स्वयं सहायता समूहों की संख्या
03E	भूमिहीनों को भूमि-वितरण	
	03E01	कुल वितरित भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
	03E02	अनु० जाति को वितरित कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
	03E03	अनु० जन जाति को वितरित कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
	03E04	अन्य को वितरित कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
04B	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम	
	04B01	किए गए निरीक्षणों की संख्या
	04B02	पाई गई अनियमितताओं की संख्या
	04B03	सुधार की गयी अनियमितताओं की संख्या
	04B04	दायर दावों की संख्या
	04B05	निपटारे गये दावों की संख्या
	04B06	लम्बित अभियोजन मामलों की संख्या
	04B07	दायर अभियोजन मामलों की संख्या
	04B08	निर्णीत अभियोजन मामलों की संख्या
05A	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली / राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	
	05A02	खाद्य सुरक्षा लक्षित जन वितरण प्रणाली (ए०पी०एल० + बी०पी०एल० + ए०ए०वाई०)
	05B02	खाद्य सुरक्षा गरीबी रेखा से नीचे (बी०पी०एल०)
	05D02	खाद्य सुरक्षा अन्त्योदय अन्य योजना (ए०ए०वाई०)
	05E02	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्यान्न – सामान्य
	05F02	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्यान्न – आवश्यकता आधारित
06A	ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना	
	06A01	निर्मित आवास की संख्या
06B	शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग / निम्न आय समूह आवास	
	06B01	निर्मित आवास की संख्या
07A	ग्रामीण क्षेत्र – राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	
	07A03	आच्छादन बसावट –आंशिक एवं छुटा हुआ।
	07A04	जल की गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों का आच्छादन
08D	निर्मल भारत अभियान	
	08D01	गृह वार शौचालय निर्माण की संख्या
08E	सांस्थानिक प्रसव	
	08E01	संस्थानों में प्रसव की संख्या
10A	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार	
	10A02	अनुसूचित जाति उप-योजना एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदत्त अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या
	10A03	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या

12A	समेकित बाल विकास सेवा योजनाओं (आई०सी०डी०एस०) का वैश्वीकरण
12A01	कार्यान्वित आई०सी०डी०एस० ब्लॉक की संख्या (संचयी)
12B	क्रियाशील आंगनबाड़ियाँ
12B01	क्रियाशील आंगनबाड़ियों की संख्या (संचयी)
14A	सत-सूत्री चार्टर के अन्तर्गत सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों की संख्या
14A01	सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों की संख्या
15A	वनरोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
15A01	पौध रोपण का क्षेत्रफल
15A02	रोपित पौध की संख्या
17A	ग्रामीण सड़क – प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY)
17A01	निर्मित सड़क की लम्बाई (किलोमीटर में)
18B	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)
18B01	विद्युतीकृत गाँव
18D	पम्प सेटों का ऊर्जाकरण
18D01	ऊर्जाकृत पंपसेटों की संख्या
18E	विद्युत आपूर्ति
18E02	की गयी विद्युत आपूर्ति

ब्रजेश मेहरोत्रा,  
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 149-571+1000-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>